



IBPS/ BANK 2023



REASONING

REVISION CLASS

तैयारी **SELECTION** वाली



 **LIVE** | **09:00 AM**

BY KULDEEP MAHENDRAS

(1) RBBs – CRP RRB-XII (Office Assistants) and CRP RRB-XII (Officers)

Preliminary Examination	Office Assistants and Officer Scale I : 05.08.2023, 06.08.2023, 12.08.2023, 13.08.2023 and 19.08.2023.
Single Examination	Officers Scale II & III : 10.09.2023
Main Examination	Officer Scale I : 10.09.2023 Office Assistants : 16.09.2023

(2) PSBs – CRP CLERK-XIII, CRP PO/MT-XIII & CRP SPL-XIII

	Clerks	Probationary Officers	Specialist Officers
Preliminary Examination	26.08.2023 27.08.2023 02.09.2023	23.09.2023 30.09.2023 01.10.2023	30.12.2023 31.12.2023
Main Examination	07.10.2023	05.11.2023	28.01.2024



Atigya Garg 20 hours ago

FA. FB
4. K. J
3. N. M
2. R. D...

Read more

1 Like Reply



Shivangi Gupta 17 hours ago

A flat:B flat
K:J
N:M
R:D...

Read more

2 Likes Reply



Surbhi Sinha 7 hours ago

KD NM RD PO THANK YOU SIR 🙏 for this brilliant session 👍 😊

2 Likes Reply



Aalap 10 hours ago

Amazing session 🙏 Thank You sir 🙏

HW ANSWER:

FLAT A. FLAT B. ...



Rakesh Prasad 16 hours ago

Hw.. Fa Fb
4. K J
3. N M
2. R D...

Read more

1 Like Reply



Tanisha p 19 hours ago

Thank u sir 🙏
flat A. flatB
4. K. J
3. N. M...

Read more

2 Likes Reply



Viśhñu Güptã 18 hours ago

Flat A. Flat B.
4. K. J
3. N. M
2. R. D...

Read more

2 Likes Reply





Riya Mandaokar 20 hours ago

Thank you sir for the session ans is

Flat A. FlatB

- 4. K. J
- 3. N. M...

[Read more](#)

Reply



Niharika Jha 18 hours ago

Homework answer:

- 4 K and J
- 3 N and M
- 2 R and D...

[Read more](#)

Reply

Share & like!



Sima Sharma 20 hours ago

Flat A Flat B

- 4. N M
- 3. R O
- 2. J D...

[Read more](#)

Reply



SHIVANGI 13 hours ago

Homework answer is

- | | Floor 1 | Floor 2 |
|---|---------|---------|
| 4 | K | J |
| 3 | N | M... |

[Read more](#)

Reply



Mitika Gupta 19 hours ago

Homework

- K J
- N M
- R D...

[Read more](#)

Reply



Abhishek Singh 11 hours ago

Flate A B

- 4 K J
- 3 N M
- 2 R D...

[Read more](#)

Reply



Eight persons lives in a building having four floors where ground floor is numbered as 1, the floor just above it is numbered as 2 and so on till the topmost floor which is numbered as 4. Each floor is having two flats i.e., Flat-A and flat-B. Flat-A of floor-2 is exactly above the flat-A of floor-1 and exactly below the flat-A of floor-3 and so on. Flat-B is in east of flat-A.



No one lives below P. Only two floors gap is there between P and J. P and J lives on different flats. M lives exactly towards the east of N. R lives immediately below N. R and N lives on same flat. D lives above O and below K. K lives on flat-A.

आठ व्यक्ति चार मंजिलों वाली एक इमारत में रहते हैं जहाँ सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल की संख्या 2 है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे निचली मंजिल की संख्या 4 है। प्रत्येक मंजिल में दो फ्लैट, अर्थात् फ्लैट-A और फ्लैट-B हैं। मंजिल-2 का फ्लैट-A, मंजिल-1 के फ्लैट-A के ठीक ऊपर है और मंजिल-3 के फ्लैट-A के ठीक नीचे है। फ्लैट-B, फ्लैट-A के पूर्व में है। P से नीचे कोई नहीं रहता है। P और J के बीच में केवल दो मंजिलों का अंतर है। P और J अलग-अलग फ्लैटों पर रहता है। M, N के ठीक पूर्व में रहता है। R, N के ठीक नीचे रहता है। R और N एक ही फ्लैट में रहते हैं। D, O से ऊपर और K से नीचे रहता है। K फ्लैट-A में रहता है।



Eight persons lives in a building having four floors where ground floor is numbered as 1, the floor just above it is numbered as 2 and so on till the topmost floor which is numbered as 4. Each floor is having two flats i.e., Flat-A and flat-B. Flat-A of floor-2 is exactly above the flat-A of floor-1 and exactly below the flat-A of floor-3 and so on. Flat-B is in east of flat-A.

No one lives below P. Only two floors gap is there between P and J. P and J lives on different flats. M lives exactly towards the east of N. R lives immediately below N. R and N lives on same flat. D lives above O and below K. K lives on flat-A.



(K)

	F ₁	F ₂
4	K	J
3	N	M
2	R	D
1	P	O

(K)

	F ₁	F ₂
4	J	K
3	N	M
2	R	D
1	O	P



h c 7 r Z w @ u & q S 4 I \$ n 1 9 J P 0 K 5 V © M 3 D %

Which of the following is the ninth to the left of the seventh element from the right end of the above arrangement?

निम्न में से कौन-सा उपर्युक्त व्यवस्था में दायें छोर से सातवें तत्व के बायें नौवां है?

- (1) 1
- (2) w
- (3) \$
- (4) ©
- (5) 9

L - L R + L
 R - R L + R



9 + 7 = 16




h c 7 r Z w @ u & q S 4 I \$ n 1 9 J P 0 K 5 V © M 3 D %

How many such letters are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a number?

उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक संख्या है?

- (1) None
- (2) One
- (3) Two
- (4) Three
- (5) Four





h c 7 r Z w @ u & q S 4 I \$ n 1 9 J P 0 K 5 V © M 3 D %



What should come next in the following series based on the above arrangement?

उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होना चाहिए?

cZu, @qi, 4nj, (?)



- (1) 905
- (2) q91
- (3) 9cJ
- (4) 9c5
- (5) 90v



h c 7 r Z w @ 8 & q S 4 I \$ n 1 9 J P 0 K 5 V © 7 3 %

How many such numbers are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a symbol but not immediately followed by a consonant?



उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्यायें हैं, जिनमें से प्रत्येक के तुरन्त पहले एक प्रतीक है, लेकिन तुरन्त बाद एक व्यंजन नहीं हैं?

- (1) One
- (2) Two**
- (3) Three
- (4) None
- (5) Five





Statement- $B = F > E > J > Q$

Conclusion - (I) $Q = B$

(II) $F > Q$



- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.



Statement- $H < K > N < M = C$

Conclusion - (I) $C > N$

(II) $H > M$

- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.





Statement- $P > Q > S < T > L$

Conclusion - (I) $P > L$

(II) $T > P$

- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.





Statement- $Z = W > X < Y < K$

Conclusion - (I) $Z > X$

(II) $K > X$





- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.



Statement- **F < S < B = Y > Z**

Conclusion - **(I) Y > H**

(II) Y < H



- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.



In a Certain code **BALL** is written as 8 , than find the code for **YELL** ?

1

1 x 8

40

5

x 8

एक निश्चित कोड में **BALL** का कोड 8 लिखा गया है , तो **YELL** का कोड क्या होगा ?

Vandana

Vowel p.v . x 8



~~(1) 125~~

~~(2) 139~~

~~(3) 144~~

~~(4) 16~~

(5) 40



In a Certain code *WATSON* is written as *371639* , than find the code for *MASTER* ?

एक निश्चित कोड में *WATSON* का कोड *371639* लिखा गया है , तो *MASTER* का कोड क्या होगा ?

~~(1) 443293~~

~~(2) 311639~~

~~(3) 534293~~

~~(4) 313233~~

~~(5) None of these~~

W A T S O N

23 | 20 19 15 14

37 16 39

M A S T E R

20

13

19

20

5

18

31 06 39



✓
 'ECONOMICS IS NOT MONEY' is called '15A, 14V, 23U, 19U'
 (A - M - N)

'CAN BANKING FOR WORD' is called '5F, 22T, 25P, 26I'

'MAKE CLEAR NOT CENTRE' is called '15G, 25T, 25G, 14V'

'OK FEW TARGETS IN' is called '19P, 8U, 13M, 22Y'

CLASS
 28U

opp + 1 → 15T

What is the code of MASTER का कोड क्या है?

01.15U

02.15T ✓✓

03.23U

04.19U

04. None of these

Alphabet → Last letter + 2

Number → First letter opp + 1



Statements :

A few figures are images.

0% snaps are images.

Conclusions :

I. Some figures are not snaps.

II. All images being snaps is a possibility.

कथन:

कुछ फिगर इमेज हैं।

0% स्नैप इमेज हैं।

निष्कर्ष:

कुछ फिगर स्नैप नहीं हैं।

सभी इमेज के स्नैप होने की संभावना है।






Statements :

A few figures are images.

0% snaps are images.



Conclusions :

I. Some figures are not snaps. ✓

II. All images being snaps is a possibility. ✗



Statements :

Only fantastic are fans.

No fans are fabulous.

Conclusions :

I. No fantastic being fabulous is a possibility.

II. Some fabulous are fantastic.

कथन:

केवल शानदार प्रशंसक हैं।

कोई प्रशंसक शानदार नहीं हैं।

निष्कर्ष:

किसी शानदार के शानदार होने की संभावना नहीं है।

कुछ शानदार शानदार हैं।





Statements :


Only fantastic are fans.

No fans are fabulous.

Conclusions :

I. No fantastic being fabulous is a possibility.

II. Some fabulous are fantastic.





Statements :

All toys are tasks.

No task is a tree.

Conclusions :

I. No tree is a task.

II. A few tasks are toys.

कथन:

सभी टॉय टास्क हैं।

कोई टास्क ट्री नहीं है।

निष्कर्ष:

कोई ट्री टास्क नहीं है।

कुछ टास्क खिलौने हैं।





Statements :


All toys are tasks.

No task is a tree.

Conclusions :

I. No tree is a task.

II. A few tasks are toys.





Statements :

A few wheels are warm.

Only wheels are wools.

Conclusions :

I. Some wheels are wools.

II. All wools are warm.

कथन:

कुछ पहिए गर्म हैं.

केवल पहिए ऊनी हैं।

निष्कर्ष:

कुछ व्हील वूल हैं।

सभी वूल वार्म हैं।






Statements :

A few wheels are warm.


Only wheels are wools.



Conclusions :

I. Some wheels are wools.

II. All wools are warm.





Done

Input:	17	18	16	15	19	21
Step I:	15	16	14	13	17	19
Step II:	19	20	18	17	21	23
Step III:	8	9	7	6	10	12
Step IV:	34	36	32	30	38	42
Step V:	324	361	289	256	400	484

-2



+4

-11

(input x 2)

(input + 1)²

|
 18 | 19 | 17 | 16 | 20 | 22



There are eight employees i.e. A, B, C, D, E, F, G and H who work in different companies of a building which has eight floor. All the companies is on different floor of the building. First floor is grounded and eight floor is top most floor. H does not work on odd numbered floor. E works on odd numbered floor but above the floor on which F works. There are 3 floor between the floor on which F works and C works. C works below F who works on odd numbered floor. A works just immediate above the floor on which H works. B works on above the floor on which D works but not on Top most floor.

आठ कर्मचारी अर्थात A, B, C, D, E, F, G व H एक बिल्डिंग की विभिन्न कम्पनियों में काम करते हैं, जिसमें आठ तल हैं। सभी कम्पनियां बिल्डिंग के विभिन्न तल पर स्थित हैं। भूतल पहला तल है तथा शीर्ष का तल आठवां तल है। H, किसी विषम संख्या वाले तल पर काम नहीं करता है। E, विषम संख्या वाले तल पर काम करता है, लेकिन उस तल से ऊपर जिस पर F काम करता है। F और C जिन तलों पर काम करते हैं उनके मध्य 3 तल हैं। C, F के नीचे काम करता है, जो विषम संख्या वाले तल पर काम करता है। A उस तल के ठीक ऊपर वाले तल पर काम करता है, जिस पर H पर काम करता है। B उस तल के ऊपर काम करता है जिस पर D काम करता है, लेकिन शीर्ष तल पर काम नहीं करता है।



There are eight employees i.e. A, B, C, D, E, F, G and H who work in different companies of a building which has eight floor. All the companies is on different floor of the building. First floor is grounded and eight floor is top most floor. H does not work on odd numbered floor. E works on odd numbered floor but above the floor on which F works. There are 3 floor between the floor on which F works and C works. C works below F who works on odd numbered floor. A works just immediate above the floor on which H works. B works on above the floor on which D works but not on Top most floor.

8		G
7	F	E
6		B
5		F
4		D
3	C	A
2		H
1		C



B
↑
D



Eight persons M, N, O, V, W, X, Y and Z attend Meetings on different months of the year viz. January, February, March and April, such that not more than two persons attend their Meetings in each of the months. Meetings can be held on either 10th or 11th day of the month. No two Meetings can be held on the same day. W attend meeting in a month which has less than 30 days. Only one person attend meeting between W and Z. O attends meeting in March. M attend meeting on even day of a month having 30 days. Equal Number of meeting are between Z and X as there between Z and V. Y attend meeting immediate before X.

आठ व्यक्ति अर्थात् M, N, O, V, W, X, Y और Z है, जो वर्ष के अलग-अलग महीनों अर्थात् जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में एक मीटिंग में इस प्रकार भाग लेते हैं कि प्रत्येक महीने में दो से अधिक व्यक्ति मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। मीटिंग महीने की या तो 10वें या 11वें दिन पर हो सकती है। समान दिन पर दो मीटिंग नहीं हो सकती हैं। W उस महीने में मीटिंग में भाग लेता है, जिसमें 30 से कम दिन होते हैं। W और Z के बीच केवल एक व्यक्ति मीटिंग में भाग लेता है। O, मार्च में मीटिंग भाग लेता है। M, 30 दिनों वाले महीने की सम दिन पर मीटिंग में भाग लेता है। Z और X के बीच होने वाली मीटिंग की संख्या, Z और V के बीच होने वाली मीटिंग की संख्या के बराबर है। Y, X के ठीक पहले मीटिंग में भाग लेता है।



Eight persons M, N, O, V, W, X, Y and Z attend Meetings on different months of the year viz. January, February, March and April, such that not more than two persons attend their Meetings in each of the months. Meetings can be held on either 10th or 11th day of the month. No two Meetings can be held on the same day. W attend meeting in a month which has less than 30 days. Only one person attend meeting between W and Z. O attends meeting in March. M attend meeting on even day of a month having 30 days. Equal Number of meeting are between Z and X as there between Z and V. Y attend meeting immediate before X.


28/29

30

Jan	10	Y	
	11	X	
Feb	10	W	
	11	N	W
March	10	Z	O
	11	O	Z
April	10	M	
	11	V	V

Y
X

M






Eight persons A, B, C, D, E, G, H and K sit in a linear row and face north (but not necessarily in the same order). All the persons work in a company on different designations viz. MD, CMD, CEO, Senior executive, Executive, Manager, Associate Manager and HR. Two persons sit between B and the one who is CEO. G who is HR sits third to the right of CEO. K is one of the immediate neighbors of HR. The one who is Executive only sits exactly between K and the one who is CEO. D sits third to the left of the one who is Executive. D sits adjacent to A who is not CEO. Same number of persons sit to the left of A and right of the one who is Manager. C and the one who is Senior executive are immediate neighbors. Three persons sit between H and the one who is MD. D is not Associate Manager.

आठ व्यक्ति A, B, C, D, E, G, H और K एक रैखिक पंक्ति में बैठते हैं और उत्तर की ओर उन्मुख हैं (लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों)। सभी व्यक्ति एक कंपनी में अलग-अलग पदों पर काम करते हैं जैसे। एमडी, सीएमडी, सीईओ, वरिष्ठ कार्यकारी, कार्यकारी, प्रबंधक, एसोसिएट मैनेजर और एचआर। B और सीईओ के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। G जो एचआर है, सीईओ के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है। K, HR के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। वह व्यक्ति जो कार्यकारी है, केवल K और सीईओ के ठीक मध्य में बैठा है। D उस व्यक्ति के बायें से तीसरे स्थान पर बैठा है जो कार्यकारी है। D, A के निकट बैठा है जो सीईओ नहीं है। A के बायें और मैनेजर के दायें ओर समान संख्या में व्यक्ति बैठे हैं। C और वह जो वरिष्ठ कार्यकारी है निकटतम पड़ोसी हैं। तीन व्यक्ति H और एमडी के बीच बैठे हैं। D एसोसिएट मैनेजर नहीं है।



Eight persons A, B, C, D, E, G, H and K sit in a linear row and face north (but not necessarily in the same order). All the persons work in a company on different designations viz. MD, CMD, CEO, Senior executive, Executive, Manager, Associate Manager and HR. Two persons sit between B and the one who is CEO. G who is HR sits third to the right of CEO. K is one of the immediate neighbors of HR. The one who is Executive sits exactly between K and the one who is CEO. D sits third to the left of the one who is Executive. D sits adjacent to A who is not CEO. Same number of persons sit to the left of A and right of the one who is Manager. C and the one who is Senior executive are immediate neighbors. Three persons sit between H and the one who is MD. D is not Associate Manager.





Eight people are sitting in two parallel rows containing four people in each row, in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row-1 A, B, C and D are seated (but not necessarily in the same order) and all of them are facing North. In row-2 E, F, G and H are seated (but not necessarily in the same order) and all of them are facing South. Therefore, in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member of the other row. D faces the person who sits 2nd to the left of E. G doesn't face A who is an immediate neighbour of D. There is one person sits between G and H. B sits to the immediate right of the person who faces E.

आठ व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में चार लोगों की इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति-1 में A, B, C और D बैठे हैं (लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों) और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। पंक्ति-2 में E, F, G और H बैठे हैं (लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों) और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। इसलिए, दी गई बैठने की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य सदस्य की ओर है। D का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो E के बायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। G का मुख A की ओर नहीं है, जो D का निकटतम पड़ोसी है। G और H के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। B उस व्यक्ति के ठीक दायें बैठा है जिसका मुख E की ओर है।



Eight people are sitting in two parallel rows containing four people in each row, in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row-1 A, B, C and D are seated (but not necessarily in the same order) and all of them are facing North. In row-2 E, F, G and H are seated (but not necessarily in the same order) and all of them are facing South. Therefore, in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member of the other row. D faces the person who sits 2nd to the left of E. G doesn't face A who is an immediate neighbour of D. There is one person sits between G and H. B sits to the immediate right of the person who faces E.

BANK ——— 9:00 AM

SSC MTS ——— 5:30 PM

(7 day, 7 paper)